



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 अप्रैल, 2025

वैशाख 2, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या 32/2025/1004/तीस-3-2025

लखनऊ, 22 अप्रैल, 2025

### अधिसूचना

सा0प0नि0-32

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धाराएं 28, 38, 65, 96 और 138 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्वारा जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों को सूचनार्थ और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से पूर्वोक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित करते हैं।

इस नियमावली के प्रारूप से सम्बन्धित आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल ऐसे आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने अपनी आपत्तियाँ और सुझाव लिखित रूप में प्रस्तुत किये हों, सुनवाई हेतु विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में उनके

कार्यालय कक्ष संख्या- 434 में दिनांक 05 जून, 2025 को पूर्वाह्न/अपरान्ह 12:30 बजे उपस्थित हो सकते हैं।

### नियमावली का प्रारूप

#### उत्तर प्रदेश मोटर यान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।

नियम 3 का  
संशोधन

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।  
2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात:-

#### स्तम्भ-1

##### विद्यमान नियम

अनुज्ञापन प्राधिकारी- सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, प्राधिकृत किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।

#### स्तम्भ-2

##### एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

अनुज्ञापन प्राधिकारी- सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, प्राधिकृत किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।

नियम 19 का  
संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-19 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

#### स्तम्भ-1

##### विद्यमान नियम

19. अनुज्ञापन प्राधिकारी- अधिनियम के अध्याय-तीन के अधीन परिवहन विभाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

#### स्तम्भ-2

##### एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

19. अनुज्ञापन प्राधिकारी- अधिनियम के अध्याय-तीन के अधीन परिवहन विभाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

4- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 37 के विद्यमान नियम 37 का उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:- संशोधन

स्तम्भ-1

## विद्यमान उपनियम

(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।

स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।

आज्ञा से,  
एल0 वेंकटेश्वर लू  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 32/2025/1004/XXX-3-2025 dated April 22, 2025

No. 32//2025/1004/XXX-3-2025

*Dated Lucknow, April 22, 2025*

The following draft rules, which the Governor proposes to make, in exercise of the powers under sections 28, 38, 65, 96 and 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) with view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the aforesaid Act of 1988 for the information of all persons likely to be affected thereby and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof;

Objections and suggestions, if any, with respect to these draft rules should be sent in writing addressed to the Special Secretary, Transport Section-3, Government of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow. Only such objections and suggestions, as are received within thirty days from the date of publication of this notification in the *Gazette*, shall be taken into consideration;

The persons who file their objections and suggestions in writing may appear for hearing before the Special Secretary, Transport Section-3, Government of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow in his office room no. 434 on 5<sup>th</sup> June, 2025 at 12.30 p.m.

### DRAFT RULES

#### THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (THIRTY-FIRST AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and  
commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirty-first Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*

Amendment  
of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, hereinafter referred to as the "said rules", *for* the existing rule 3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

##### COLUMN-I

*Existing Rule*

##### **Licensing authority**

3. The licensing authority shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector or the Assistant Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority under this chapter.

Amendment  
of rule 19

3. In the said rules, *for* the existing rule 19 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

##### COLUMN-I

*Existing Rule*

##### **Licensing authority**

19. The licensing authority under Chapter III of the Act shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector or the Assistant Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority.

##### COLUMN-II

*Rule as hereby substituted*

##### **Licensing authority**

3. The licensing authority shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority under this Chapter.

##### COLUMN-II

*Rule as hereby substituted*

##### **Licensing authority**

19. The licensing authority under Chapter III of the Act shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority.

4. In the said rules, *for* the existing sub-rule (1) of rule 37 set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

Amendment  
of rule 37

COLUMN-I

*Existing Rule*

(1) The registering authority shall be the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of the registering authority under the provisions of the Act and the rules made thereunder.

COLUMN-II

*Rule as hereby substituted*

(1) The registering authority shall be the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of the registering authority under the provisions of the Act and the rules made thereunder.

By order,  
L. VENKATESHWAR LU,  
*Pramukh Sachiv.*